



# MOREPEN



**Date: 04-11-2023**

To,

**National Stock Exchange of India Ltd.**

Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai- 400 051

**Symbol: MOREPENLAB**

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Mumbai- 400 001

**Scrip Code: 500288**

**Subject: Newspaper Advertisements - Unaudited standalone and consolidated financial results of the company for the quarter and half year ended 30<sup>th</sup> September 2023, approved by the Board of Directors on 2<sup>nd</sup> November 2023**

Dear Sir/ Madam,

This is in reference to the captioned subject, we would like to inform that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the aforesaid financial results are published in the following newspapers on 4<sup>th</sup> November 2023:

- i. Financial Express (English)
- ii. Jansatta (Hindi)

The copy of newspaper advertisements is attached herewith. These are also being made available on the website of the company at [www.morepen.com](http://www.morepen.com)

Kindly acknowledge the receipt and take it on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Morepen Laboratories Limited**

**Vipul Kumar Srivastava**

**Company Secretary**

**Membership no. F-12148**

Encl.: a/a.

**Morepen Laboratories Limited**

CIN No: L24231 HP1984PLC006028

**Corp. Off.:** 2<sup>nd</sup> Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III, Sector 20, Gurugram, Haryana-122016, INDIA

Tel.: +91 124 4892000, E-mail: [corporate@morepen.com](mailto:corporate@morepen.com), Website: [www.morepen.com](http://www.morepen.com)

**Regd. Off.:** Morepen Village, Malkumajra, Nalagarh Road, Baddi, Distt. Solan (H.P.) -173205, INDIA

Tel.: +91-1795-266401-03, 244590, Fax: +91-1795-244591, E-mail: [plants@morepen.com](mailto:plants@morepen.com)

•GLOBALGENERIC •DIAGNOSTICS •FORMULATIONS •SELFHEALTHPRODUCTS



## MOREPEN LABORATORIES LIMITED

(CIN: L24231HP1984PLC006028)

**Regd. Office :** Morepen Village, Nalagarh Road,  
Near Baddi, Distt. Solan, H.P. - 173205

**Tel:** +91-1795-266401-03, 244590, **Fax:** +91-1795-244591

**Corp. Office :** 2<sup>nd</sup> Floor, Tower C, DLF Cyber Park, Udyog Vihar-III,  
Sector 20, Gurugram, Haryana-122016

**Website:** www.morepen.com, **E-mail:** investors@morepen.com

### Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results For the Quarter & Half Year Ended 30<sup>th</sup> September, 2023

(₹ in Lakhs, except per share data)

Sl. No.	Particulars	Consolidated		
		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	42176.87	82280.49	40297.80
2	Profit before Tax	2868.17	4919.35	2230.70
3	Net Profit after Tax	2125.58	3588.87	1581.09
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	2044.09	3608.67	1478.00
5	Paid-up Equity Share Capital of Face Value of ₹2/- each	10222.71	10222.71	10222.71
6	Other Equity	-	68676.77	-
7	Earning Per Share (in ₹)			
	- Basic	0.42	0.71	0.33
	- Diluted	0.42	0.71	0.33

**Note:-**  
A The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange's websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the Company's website [www.morepen.com](http://www.morepen.com).

B. Additional Information on Standalone financial results is as follows:-

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30.09.2023	30.09.2023	30.09.2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	38125.76	75036.05	38334.23
2	Profit for the period before Tax	2733.41	4904.64	2302.03
3	Net Profit for the period after Tax	1992.39	3577.39	1652.42
4	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	1904.47	3598.90	1552.55

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-

**Place :** Gurugram **(Sushil Suri)**  
**Date :** November 02, 2023 **Chairman & Managing Director**

Note - Shareholders are requested to register their Email ID at [investors@morepen.com](mailto:investors@morepen.com)/[investor@masserv.com](mailto:investor@masserv.com)/[www.morepen.com](http://www.morepen.com) for quick correspondence.

## STATE BANK OF INDIA Stressed Assets Recovery Branch-I

1st Floor, 23, Najafgarh Road, New Delhi - 110015, Ph.: 25419177, 25412977, e-mail: sbi.05169@sbi.co.in

### NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

A notice is hereby given that the below mentioned Borrower/s have defaulted in the repayment of principal and interest of the loans facility obtained by them from the Bank and the loans have been classified as Non-Performing Assets (NPA). The notices were issued to them under Section 13(2) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 on their last known addresses, but they have been returned unserved and as such they are hereby informed by way of this public notice.

Sr. No.	Name of the Borrower	Details of Properties/ Address of Secured Assets to be Enforced	Date of Demand Notice	Amount outstanding (as on the date of notice)
1	Shri Harinder Singh S/o Sh Sukhbir Singh, Address: Village And Post Faizpur Ninana, Dist. Baghpat-250609	Plot measuring total area 200 sq. Yards i.e. 167.22 Sq. Mtr. Situated at Abadi New Colony, Meerut Road (From Rastra Vandana chowk to Munna Lal enclave) Baghpat Under the limits of Nagar Palika Baghpat, Tehsil & District Baghpat. in the name of SHRI HARENDER SINGH S/O SH SUKHBIR SINGH AND SHRI NAGENDER PAL S/O SH SUKHBIR SINGH registered vide Sale Deed dated 10.03.2015 at Bahi No 1 Zild No 5570 Page Nos 11-36 at Sr No 1606 with Sub Registrar Baghpat, Bounded as Under: East - Other's Property, West - Gali, North - Other's Property, South: Gali	23-10-2023 Date of NPA 07-05-2023	Rs. 55,28,859.00 (Rupees Fifty Five Lakh Twenty Eight Thousand Eight Hundred Fifty Nine Only) as on 23.10.2023
	Shri Nagender Pal S/o Sh Sukhbir Singh, Address: Plot No. 3/4, Flat No. 101, Madhav Kunj Sector-5, Rajinder Nagar Sahibabad, U.P. 201005			
	Shri Harinder Singh S/o Sh Sukhbir Singh, M/s VMV Enterprises, A-5, Yadram Market 5th Pusta, Main Road, Gauri Delhi-110053			
	Shri Nagender Pal S/o Sh Sukhbir Singh, M/s VMV Enterprises, A-5, Yadram Market 5th Pusta, Main Road, Gauri Delhi-110053			
2	M/s Genius Propbuild Private Limited, Regd. Office- 64, Scindia House, Connaught Place, New Delhi-110001 Also at: 166, Ground Floor, Udyog Vihar, Phase-1, Gurugram-122016 Also at: IRIS Tech Park, Tower-B, 1st Floor Sector-48, Gurugram-122018	First And Exclusive Charge Of Equitable Mortgage Over Specific Unsold Project Inventory (9 Residential & 20 Commercial Unit, Detailed & Described In The following Table, Admeasuring Totaling 11049.75 Sq. Ft.), located within The Company's Group Housing Project "THE AVALON RANGOLI" & "AVALON RANGOLI PLAZA" built on Land admeasuring 24399.70 Sq. mtr. situated in the village- Karam Pur , Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan.	23-10-2023 Date of NPA 28-06-2019	Rs. 2,11,52,667.05 (Rupees Two Crore Eleven Lakh fifty Two Thousand Six Hundred Sixty Seven and Paise Five Only) as on 20.10.2023 with further interest and other incidental expenses, cost
	Mr. Ajay Kumar Gupta, D-2, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi-110034			
	Mr. Ankit Gupta, D-2, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi-110034			
	Mr. Ajay Singal, AR-112A (The Aralias), Block-A, 12th Floor, Golf Course Road, Sector-42, DLF-V, Gurugram-122009 Also at: Plot no. 16, Road no. 51, Punjabi bagh West, New Delhi-110026			
	Mr. Sanjay Singal, AR-112A (The Aralias), Block-A, 12th Floor, Golf Course Road, Sector-42, DLF-V, Gurugram-122009 Also at: Plot no. 16, Road no. 51, Punjabi Bagh West, New Delhi-110026			
DETAILS OF UNSOLD RESIDENTIAL APARTMENT				
Sr. No.	TOWER	UNIT NO.	FLOOR	Area Sq. Fts.
1	A7	404	4th FLOOR	1000
2	A2	405	4th FLOOR	1000
DETAILS OF UNSOLD RESIDENTIAL APARTMENT (EWS)				
Sr. No.	TOWER	UNIT NO.	FLOOR	Area Sq. Fts.
1	A8	501	5TH FLOOR	450
2	A8	502	5TH FLOOR	450
3	A8	503	5TH FLOOR	450
4	A8	504	5TH FLOOR	450
5	A8	505	5TH FLOOR	450
6	A8	506	5TH FLOOR	450
7	A8	601	6TH FLOOR	450
DETAILS OF UNSOLD COMMERCIAL UNITS				
Sr. No	UNIT NO.	Floor	Area Sq. Fts.	
1	G-2	Ground Floor	316.67	
2	G-6	Ground Floor	215.80	
3	G-8	Ground Floor	404.72	
4	G-10	Ground Floor	224.32	
5	G-14	Ground Floor	283.86	
6	G-19	Ground Floor	363.08	
7	G-21	Ground Floor	337.60	
8	G-24	Ground Floor	239.10	
9	G-26	Ground Floor	299.16	
10	F-1	First Floor	379.08	
11	F-2	First Floor	206.13	
12	F-3	First Floor	323.88	
13	F-4	First Floor	278.57	
14	F-5	First Floor	278.57	
15	F-6	First Floor	278.57	
16	F-8	First Floor	278.57	
17	F-12	First Floor	278.57	
18	F-14	First Floor	289.63	
19	F-15	First Floor	318.01	
20	F-16	First Floor	305.86	

The steps are being taken for substituted service of notice. The above Borrower(s) and/or their Guarantor(s) (whenever applicable) are hereby called upon to make payment of outstanding amount within 60 days from the date of publication of this notice, failing which further steps will be taken after expiry of 60 days from the date of this notice under sub-section (4) of Section 13 of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

Dated : 02-11-2023, Place : Delhi

Authorised Officer, STATE BANK OF INDIA



**Regional Stressed Asset Recovery Branch;**  
**4th Floor, Rajendra Bhawan, Rajendra place, New Delhi-110008**  
Ph : 011-43026349, 42268473 Email : [sardii@bankofbaroda.com](mailto:sardii@bankofbaroda.com)

## SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

**APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 8 (6)]**

**E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged /charged to the Secured Creditor, Physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Baroda (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 12.12.2023 for recovery of Rs.37,29,564.79 as on 31.10.2021 plus applicable future interest, cost, charges and expenses thereon. The details of Borrower(s)/Guarantor(s)/Secured Asset/Due/Reserve Price/e-Auction Date & Time, EMD and Bid Increase amount are mentioned below-

Sr. No.	Name & address of Borrower/s / Guarantor/s	Detailed description of the immovable property	Total Dues, and date of demand notice	Date/ time of e-Auction	Reserve Price EMD Bid increase amount	Status of Possession Symbolic /Physical
1.	Borrower: M/S GARG AND COMPANY through Proprietor Bhuvanesh Kumar Aggarwal. Address: B 82, Vishwas Park, Uttam Nagar, New Delhi 110059.	Equitable Mortgage of Industrial Property situated at Plot No. G1-191, RICOH, Industrial Estate Khushkhhera, Tehsil - Tijara, District - Alwar, Rajasthan of 1040 sq. Mtr. Bounded: On North- Plot G152, On South - Road 24 Mtr, On East- Road 18 Mtr, On West- Plot G 190	Rs.37,29,564.79 as on 31.10.2021 plus applicable future interest, charges and expenses thereon.	12.12.2023 (02:00 pm to 06:00 pm)	Rs. 1,90,00,000/- Rs. 19,00,000/- Rs. 1,00,000/-	Physical

Date of Inspection: Up to 11.12.2023

The auction will be conducted through AUCTION SERVICE PROVIDER MSTC LTD. <https://www.mstccommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp>

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/e-auction/e-auction-notice> and <https://ibapi.in>.

Also prospective bidder may contact the authorized officer Mr. Anirudh Sharma on Mobile no.7289927484.

Date: 31.10.2023, Place: New Delhi

AUTHORISED OFFICER, BANK OF BARODA



## POSSESSION NOTICE See Rule 8(1)

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 under section 13(2) read with Rule 3 of the security interest [Enforcement] Rules, 2002, calling them to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower/guarantor having failed to repay the amount, notice is given to the under noted Borrower/Guarantor and the public in general that the undersigned has taken Symbolic/ Physical Possession of the properties described herein below in exercise of the power conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 on the dates mentioned hereunder. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Bank of India, for an amount including interest & other charges thereon mentioned herein below. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of Act., in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of the Borrower/Guarantor	Description of Properties Mortgaged/Owner of the properties	Date of Possession	O/S as per notice US 13(2)/Date of Demand notice
Borrower- Mrs. Mamta Alias Mamta Sharma	EQM of property No- Plot No- 14, part of old Khasra No- 4202 & New No- 1596-K Shriram Colony, Sudamapuri, Mauja Naraiich, Tehsil Etmadpur, Distt- Agra, Area: 59.45 Sq. Mtr., in the name of Mrs. Mamta Alias Mamta Sharma, Bounded as: East- Property No- 15, West- Road, North- Road & Land of Others, South- Road 20-0 ft. wide	01.11.2023	₹ 18,46,030.27 + Int. & other charges 11.08.2023
Borrower- Mr. Ramjeet Singh S/o Mr. Atar Singh and Mrs. Vimlesh Devi W/o Ramjeet	EQM of residential property situated at Crop No- 40/A/8N/18 Khasra No-416 Maharshipuram Colony Haripurwat Ward, Kakretha Distt- Agra, Area: 164.2 Sq. Mtr., in the name of Mrs. Vimlesh Devi, Bounded as: East- Road 28 ft, West- Property of Others, North- Property of Others, South- Property of Others	01.11.2023	₹ 9,29,727.07 + Int. & other charges 24.07.2023
Borrower- Mrs. Krishna Devi W/o Mr. Ram Avatar and Mr. Ram Avatar	EQM of residential Property at Plot No: 4-B Part of Khasra No. 922 Sarai Hajjam Jalesar Road Mauja Naraiich II Agra, Area- 41.80 Sq. Mtr., in the name of Mrs. Krishna Devi, Bounded as: East- Property of Smt. Shashi Devi, West- Property No:05, North- Other Property, South- Rasta 15' wide	01.11.2023	₹ 8,77,497.04 + Int. & other charges 25.07.2023
Borrower- Mrs. Rajni Verma W/o Mr. Sanjay Verma and Mr. Sanjay Verma	EQM of residential Land and Building situated at Plot No- 86 & 87 Charul Enclave Vill- Kaharai Shamsabad road Agra, Area- 120.39 Sq. Mtr., in the name of Mrs. Rajni Verma W/o Mr. Sanjay Verma, Bounded as: East- 25' Ft wide Road, West- Other Property, North- Other House, South- Other House	01.11.2023	₹ 12,84,901.51 + Int. & other charges 25.07.2023

Date: 04-11-2023

Authorised Officer, Bank of India



Ref : **(APPENDIX IV)**  
**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [Rule 8(1)]**

Whereas The undersigned being the Authorized Officer of the Indian Overseas Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 08.05.2023 calling upon the borrower Mr Sandeep Kumar Yadav S/o Mr Ashok Kumar Yadav, Mr Ashok Kumar Yadav S/o Shyonarayan & Mr Vikram Singh mortgagors /guarantors) to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 24,49,978.26/- (Rupees Twenty Four Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy Eight and Twenty Six Paise Only) as on 30.04.2023 with further interest at contractual rates and rests, charges etc. till date of realization within 60 days from the date of receipt of the said notice.

(1) The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/Guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on this 2<sup>nd</sup> day of November of the year 2023.

(2) The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Overseas Bank for an amount Rs. 24,49,978.26/- (Rupees Twenty Four Lakhs Forty Nine Thousand Nine Hundred and Seventy Eight and Twenty Six Paise Only) and interest thereon at contractual rates and rests as agreed, date of payment less repayment, if any, made after issuance of Demand Notice. The Dues payable as on the date of taking possession of Rs. 24,94,412.26 (Rupees Twenty Four Lakhs Ninety Four Thousand Four Hundred Twelve and Twenty Six Paise Only) payable with further interest at contractual rates and rests, Charges etc., till date of payment.

(3) The Borrower attention is invited to provisions of Sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available to them, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

All that part and parcel of the property situated at

Nature of Security	Particulars of securities
1. Mortgage of immovable property owned jointly by Mr Sandeep Kumar Yadav & Mr Ashok Kumar Yadav	Equitable mortgage of residential flat admeasuring 1250 sq ft with address of G602, 6th floor, Hill View Apartment, Neerama, Alwar District, Rajasthan
	Boundaries: North : Open South : Entrance East : Flat No. G-604 West : Open

Dated: 02.11.2023

Place: Neerama

Sd/- Authorised Officer

Indian Overseas Bank



**GREATER NOIDA BRANCH**  
1st Floor, 7th Bhikaji Cama Place, New Delhi-110016 E-Mail ID: [zs8343@pnbc.co.in](mailto:zs8343@pnbc.co.in)

**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)**  
Issued under Section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Whereas the undersigned being the authorized officer of INDIAN BANK, Greater Noida Branch under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with (rule 3) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated 21.04.2023 calling upon the Borrowers - MR. Sachin Aggarwal (Agrawal) S/O Mr. Vijay K. Aggarwal (Agrawal) at P-9, Ground Floor, Sanjay Nagar, Sector-23, Ghaziabad-201002; ALSO AT B-51, Block-B, Dayanand Colony, Lalpat Nagar-IV, New Delhi-110024; ALSO AT B-343, 2nd Floor, C/R Park, Delhi-110019 and Guarantor Mr. Sandeep S/o Mr. Veer Singh at P-9, Ground Floor, Sanjay Nagar, Sector-23, Ghaziabad-201002 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.73,88,742.00 (Rupees Seventy Three Lakh Eighty Eight Thousand Seven Hundred Forty Two Only) as on 20.04.2023, with further interest from 21.04.2023, costs, expenses and other incidental charges thereon within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers/ guarantor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers/ guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Sub - Sec. (4) of Section 13 of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules 2002, on this 30th day of October 2023.

The borrowers/ guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the INDIAN BANK, GREATER NOIDA BRANCH, S-7, Gamma Shopping Mall, Sector-Gamma-1, Greater Noida, Gautam Budh Nagar- 201308, for an amount of Rs.73,88,742.00 (Rupees Seventy Three Lakh Eighty Eight Thousand Seven Hundred Forty Two Only) as on 20.04.2023, with further interest from 21.04.2023, costs, expenses and other incidental charges thereon.

[The borrower's attention is invited to the provisions of sub - section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets].

**Description of the Movable/ Immovable property**

EQUITABLE MORTGAGE OF HOUSE NO. P-9, GROUND FLOOR, SANJAY NAGAR, SECTOR-23, GHAZIABAD-201002, AREA ADMEASURING 95.78 SQ MTRS. IN THE NAME OF MR. SACHIN AGGARWAL (Agrawal)

**BOUNDED AS:** ON NORTH: Road 12 Mtr., ON SOUTH : Road 12 Mtr. ON EAST: House No. P-10, ON WEST: House No. P-8

Date: 30.10.2023,

Place: Greater Noida / Ghaziabad, Uttar Pradesh

Sd/-, Authorised Officer,

Indian Bank

## "IMPORTANT"

Whist care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



**E-AUCTION (Sale through E-Auction only)**

**SAMVERT; 1st Floor, NBCC Building, Block-3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023. E-mail: [ho.samvertical@psb.co.in](mailto:ho.samvertical@psb.co.in)**

**[APPENDIX-IV-A] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY**  
E-Auction Sale Notice for sale of immovable assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

E-auction Date & time	Property Inspection Date & Time	Last Date of BID Submission
22.11.2023, 11:30 A.M to 12:30 P.M	20.11.2023, 03.00 PM to 4.00 PM	21.11.2023, upto 5.00 P.M.

Notice is hereby given to public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable properties mortgaged to the secured creditor the Symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of Punjab & Sind Bank (secured creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis for realization of bank dues. The same will be done through E auction platform provided at web portal (<https://www.bankauctions.com>).

Name and Address of the Borrower & Guarantors	Description of Properties	Minimum Reserve Price (Amt. in Crs)
---	---------------------------	-------------------------------------

